



ENGLISH

HINDI

OWNER'S MANUAL
**MICROWAVE
OVEN**

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MJ3294BG

How the Microwave Function Works /

माइक्रोवेव प्रणाली किस तरह कार्य करती है

Microwaves are a form of energy similar to radio, television waves, and ordinary daylight. Normally, microwaves spread outwards as they travel through the atmosphere and disappear without effect. This oven, however, has a magnetron that is designed to make use of the energy in microwaves. Electricity, supplied to the magnetron tube, is used to create microwave energy.

रेडियो, टेलीविजन तरंगों और दिन के सामान्य प्रकाश की तरह ही माइक्रोवेव भी ऊर्जा का ही एक रूप है। आमतौर पर माइक्रोवेव की ये ऊर्जा तरंगे बाहर की तरफ ही प्रसारित होती हैं क्योंकि वे वातावरण में चालित होती हैं और अंततः प्रभावहीन हो कर गायब हो जाती हैं। इस ओवन में अतिरिक्त रूप से एक मैग्नेट्रॉन होता है जो कि माइक्रोवेव्स में समाहित ऊर्जा को उपयोग में लाने का कार्य करता है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब में प्रवाहित विद्युत, माइक्रोवेव ऊर्जा का निर्माण करती है।

These microwaves enter the cooking area through openings inside the oven. A tray is located inside the oven. Microwaves cannot pass through metal walls of the oven, but they can penetrate such materials as glass, porcelain and paper, the materials out of which microwave-safe cooking dishes are constructed.

ये माइक्रोवेव्स, ओवन के माध्यम से कुकिंग एरिया में अन्दर की तरफ प्रयोग में लाई जाती हैं। ओवन के भीतर एक ट्रे होती है जो मुख्य उपयोग में आती है। माइक्रोवेव्स ओवन के चारों ओर की धातु से बनी दीवारों को पार नहीं कर पाती हैं परन्तु यह अपने आसपास की वस्तुएं जैसे ग्लास, पोरसलीन और कागज सहित सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाये गए अन्य धातु के बरतनों में प्रवाहित हो जाती हैं।

Microwaves do not heat cookware, though cooking vessels will eventually get hot from the heat generated by the food.

मूलरूप से माइक्रोवेव्स खाने के बरतनों को गर्म नहीं करती बल्कि ये बरतन गर्म हुए भोजन की गरमाहट से आखिरकार गर्म हो ही जाते हैं।

A very safe appliance / अति-सुरक्षित उपकरण

Your Microwave oven, is one of the safest of all home appliances. When the door is opened, the oven automatically stops producing microwaves. Microwave energy is converted completely to heat when it enters food, leaving no "left over" energy to harm you when you eat your food.

माइक्रोवेव ओवन आपके सभी घरेलू उपकरणों में से सबसे अधिक सुरक्षित होता है। जब द्वार खुला होता है तब ओवन अपने आप ही माइक्रोवेव्स भेजना बंद कर देता है। जब ये माइक्रोवेव खाने के सामान में प्रवाहित होती हैं तो वे पूरी तरह से ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती हैं और कोई ऊर्जा शेष नहीं रह जाती है जिससे इस भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

Contents

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

9 SAFETY PRECAUTIONS

11 BEFORE USE

11 Unpacking & Installing

13 Method To Use Accessories As Per Mode

14 Microwave-Safe Utensils

16 Touch Panel

18 Child Lock

18 Add 30 secs

19 HOW TO USE

19 Micro Power Cooking

20 Micro Power Level

21 Grill Cooking

22 Grill Combi Cooking

23 Convection Preheat

24 Convection Cooking

25 Convection Combi Cooking

26 More Or Less Cooking /Energy Saving

27 TO CLEAN YOUR OVEN

28 QUESTIONS & ANSWERS

29 TWO RECIPES

29 Two Recipe For Starters

31 PLUG WIRING INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/ READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश/

ध्यान से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ के लिए रखें

Read and follow all instructions before using your oven to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the oven. This guide does not cover all possible conditions that may occur. Always contact your LG service technician or manufacturer about problems that you do not understand.

कृपया आगे के सन्दर्भों पर नजर डालें। ओवन का इस्तेमाल करते समय आग लगने या विद्युत का झटका लगने, व्यक्तिगत तौर पर दुर्घटना और क्षति से बचने के लिए उपयोग में लाने के पूर्व सभी निर्देश पढ़ें और उनका पालन करें। यह दिशा-निर्देश सभी संभावित दशाओं का वर्णन नहीं करती जो ओवन पर कार्य करते समय हो सकती हैं। किसी भी ऐसी समस्या के दौरान जब आप स्थिति को समझने में असमर्थ हों, आप सदैव अपने LG सर्विस तकनीशियन या निर्माता से संपर्क करें।

WARNING / चेतावनी

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION". These word means:

यह सुरक्षा-सचेतक चिन्ह हैं। यह चिन्ह आपको संभावित सभी खतरों के प्रति सचेत करता है जो कि आपकी या दूसरों की जान ले सकते हैं या उनको घायल कर सकते हैं। सभी सुरक्षा संदेश सुरक्षा सचेतक चिन्हों या "वार्निंग" या "कॉशन" के बाद लिखे हुए हैं। इन शब्दों का अर्थ है:

WARNING / चेतावनी

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious body harm or death.

यह चिन्ह आपको खतरों या असुरक्षित तरीके से कार्य करते समय होने वाली शारीरिक दुर्घटनाओं या मृत्यु आदि की आशंकाओं से सचेत करता है।

CAUTION / सावधानी

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause body injury or property damage.

यह चिन्ह आपको खतरों या असुरक्षित तरीके से कार्य करते समय होने वाली शारीरिक दुर्घटनाओं या संपत्ति संबंधी अन्य किसी क्षति की आशंकाओं से सचेत करता है।

WARNING / चेतावनी

- 1 Do not attempt to tamper with, or make any adjustments or repairs to the door, door seals, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven which would involve the removal of any cover protecting against exposure to microwave energy. Do not operate the oven if the door seals and adjacent parts of the microwave oven are faulty. Repairs should only be undertaken by a qualified LG service technician.

ओवन के द्वार, द्वार की सील, कंट्रोल पैनल, सेफ्टी इंटरलॉक स्विचेंस या उसका कोई अन्य हिस्सा जो कि माइक्रोवेव ऊर्जा को बाहर निकलने से रोककर सुरक्षित करता हो, से छेड़छाड़ न करें न ही किसी प्रकार का जोड़तोड़ या सुधार करें। द्वार या उससे जुड़े किसी हिस्से में कोई खराबी आने की दशा में ओवन का उपयोग न करें। इसकी मरम्मत का काम सिर्फ LG सर्विस तकनीशियन के माध्यम से ही करवाएं।

- Unlike other appliances, the microwave oven is a high-voltage and a high electrical-current equipment. Improper use or repair could result in harmful exposure to excessive microwave energy or in electric shock.

अन्य उपकरणों की तुलना में माइक्रोवेव ओवन एक उच्च क्षमता का उच्च विद्युत तरंग वाला उपकरण है। इसका गलत तरीके से इस्तेमाल या मरम्मत करने से अत्यधिक मात्रा की माइक्रोवेव ऊर्जा का हानिकारक प्रभाव या विद्युत के झटके का खतरा हो सकता है।

- 2 Do not use the oven for the purpose of dehumidification. (ex. Operating the microwave oven with wet newspapers, clothes, toys, electric devices, pet or child etc.)

ओवन को डि-ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल न करें। (जैसे गीले अखबार, कपड़े, खिलौनों, विद्युत उपकरणों, पालतू पशु या बच्चों के साथ ओवन को न चलायें)

- It can be the cause of serious damage to safety such as a fire, a burn or a sudden death due to an electric shock.
यह आग, जलना या विद्युत के झटके से होने वाली अकस्मात् मृत्यु जैसी गंभीर सुरक्षा-क्षति का कारण भी बन सकता है।

WARNING / चेतावनी

- 3 The appliance is not intended for use by young children or elderly persons. Only allow elderly & children (8 years and above) to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

इस उपकरण को छोटे बच्चों या वृद्ध लोगों के प्रयोग करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। वृद्धों और बच्चों (8 वर्ष या अधिक उम्र) को तब ही इसे चलाने दें जब उनको पर्याप्त जानकारी और दिशा-निर्देश दे दी गयी हो ताकि वे इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के खतरों के प्रति सतर्क होकर इसे सुरक्षापूर्वक उपयोग में ला सकें।

- Improper use may cause damage such as a fire, electric shock or burn.
अनुचित उपयोग से क्षति हो सकती है, जैसेकि आग लगना, बिजली का झटका लगना या जलना।

- 4 Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
इसके इस्तेमाल के दौरान स्पर्श में आने लायक इसके सभी हिस्से गर्म हो सकते हैं। छोटे बच्चों को दूर रखना आवश्यक है।

- They may get a burn.
इससे जलने का खतरा है।

WARNING / चेतावनी

- 5 Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. Remove the plastic wrapping from food before cooking or defrosting. Please note that in some cases food should be covered with plastic film, for heating or cooking.

बंद बर्तनों में तरल या अन्य भोजन इसके अन्दर गर्म न किए जाएं क्योंकि उनमें विस्फोट हो सकता है। खाना बनाते समय या डी-फ्रॉस्ट करते समय बर्तन का मुंह बंद करने वाली प्लास्टिक की झिल्ली आदि अवश्य निकाल लें। कुछ मामलों में गरम करने या बनाने के लिए खाने को प्लास्टिक की झिल्ली से बंद करके इसमें रखा जाना चाहिए।

- They could burst.
उसमें विस्फोट हो सकता है।

WARNING / चेतावनी

- 6 Do not operate your oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door(bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

ओवन यदि क्षतिग्रस्त है तो इसको न चलाएं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ओवन के द्वार ठीक से बंद हों और इनमें से कोई (1) द्वार (मुड़ें), (2) कब्जे और चिटकनी (टूटी या ढीली), (3) द्वार सील और सीलिंग तल क्षतिग्रस्त न हो।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy.
इसके परिणामस्वरूप अति माइक्रोवेव ऊर्जा घातक हो सकती है।

- 7 Be certain to use proper accessories on each operation mode, refer to the guide on page 13.
ओवन के किसी भी तरह के उपयोग के दौरान पृष्ठ 13 के निर्देश के अनुसार उचित उपकरणों का इस्तेमाल करें।

- Improper use could result in damage to your oven and accessories, or could make spark and a fire.
इसके गलत तरीके से इस्तेमाल से ओवन और आपके उपकरणों का नुकसान या विद्युत स्पार्क या आग लगने का खतरा हो सकता है।

- 8 The children should not allow to play with accessories or hang down from the door handle.
बच्चों को इसकी एक्सेसरीज से खेलने या इसके दरवाजे पर लटकने से मना किया जाना चाहिए।

- They may get hurt.
उन्हें चोट लगने का खतरा है।

9 It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

किसी भी व्यक्ति को जो कि ओवन का तकनीक विशेषज्ञ न हो, ओवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत या किसी भी तरह का जोड़तोड़ करने से मनाही होनी चाहिए ताकि माइक्रोवेव ऊर्जा से बचाने के लिए लगे हुए कवर अपनी जगह से न हिलें।



CAUTION / सावधानी

1 You cannot operate your oven with the door open due to the safety interlocks built into the door mechanism. It is important not to tamper with the safety interlocks.

इसके दरवाजों पर लगे सेफ्टी इंटरलॉक्स के कारण आप इसके द्वार खोल कर इसको नहीं चला सकते। ये बहुत जरूरी है कि सेफ्टी इंटरलॉक्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy. (Safety interlocks automatically switch off any cooking activity when the door is opened.)

इसमें पैदा होने वाली अत्यधिक माइक्रोवेव ऊर्जा के कारण ये खतरे की वजह भी बन सकते हैं। (जब ओवन के द्वार खुले होते हैं तो सेफ्टी इंटरलॉक्स अपने आप निष्क्रिय हो कर खाना बनाने या गरम करने का कार्य बंद कर देते हैं।)

2 Do not place any object (such as kitchen towels, napkins, etc.) between the oven front face and the door or allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

ओवन के डोर और केविटी के सामने वाली सतह के बीच में कोई सामान (जैसे किचन टॉवल या नैपकिन इत्यादि) न रखें न ही किसी तरह के खाने या सफाई करने वाले सामान के अवशेष यहां न रहने दें।

- It could result in harmful exposure to excessive microwave energy. ऐसा करना अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह से खतरा पैदा कर सकता है।

3 Please ensure cooking times are correctly set, small amounts of food require shorter cooking or heating time.

कुकिंग टाइम को निश्चित समय के लिए सही सेट करें। कम मात्रा वाले भोजन को पकाने के लिए कम समय लगता है।

- Over cooking may result in the food catching fire and subsequent damage to your oven.

आवश्यकता से अधिक समय तक कुकिंग से आग लग सकती है और आपके ओवन को क्षति पहुंच सकती है।

4 When heating liquids, e.g. soups, sauces and beverages in your microwave oven,

*** Avoid using straight sided containers with narrow necks.**

*** Do not overheat.**

*** Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time.**

*** After heating, let it stand in the oven for a short time; stir or shake it again carefully and check the temperature of it before consuming to avoid burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars).**

सूप, सॉसेज और पेय पदार्थों को जब माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए रखें,

* छोटी गर्दन वाले सीधे खड़े पात्र इसमें रखने से बचें।

* आवश्यकता से अधिक समय तक हीटिंग न करें।

* तरल पदार्थ के भगोने को इसमें रखने से पहले हिलाएं और हीटिंग के दौरान आधे समय के बाद फिर से बाहर निकाल कर हिला लें, फिर अन्दर रखें।

* हीटिंग के बाद कुछ समय आप उसे अन्दर ही रहने दें फिर इस भोजन को ग्रहण करने से पहले इसे सावधानीपूर्वक हिला लें, या चमचे से चला लें ताकि आप इसकी उष्णता का अनुमान कर इसे खा/पी सकें और आपका मुंह जलने से बच सकें (विशेष तौर पर बच्चे को खाना खिलाने वाला पात्र या दूध पिलाने वाली बोतल)।

- Be careful when handling the container. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling without evidence of bubbling. This could result in hot liquids suddenly boiling over.
भगोने को इससे निकालते समय पकड़ने में सावधानी रखें। माइक्रोवेव में जलीय पदार्थों को गर्म होने पर कई बार वे देर से और बिना बुलबुले दिए अचानक उबल जाते हैं। इससे जलने का खतरा पैदा हो सकता है।
- 5 **An exhaust outlet is located on the top, bottom or side of the oven. Don't block the outlet.**
इसकी ऊपरी सतह पर, बगल में या नीचे एक एग्जॉस्ट द्वार होता है। इस द्वार को सदा खुला रखें।
 - It could result in damage to your oven and poor cooking results.
इससे आपके ओवन को क्षति पहुंच सकती है और खाना भी ठीक से नहीं पकेगा।
- 6 **Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave energy, if the oven is accidentally started.**
ओवन खाली होने की दशा में चालू न करें। ये बेहतर होगा कि जब ओवन का इस्तेमाल न हो रहा हो तो एक ग्लास पानी भरकर इसमें रखें। इससे जब भी कभी गलती से ओवन चालू हो जाए तो ये पानी इसकी सारी ऊर्जा को अपने अन्दर अवशोषित कर लेगा और दुर्घटना का खतरा नहीं रहेगा।
 - Improper use could result in damage to your oven.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से ओवन को नुकसान पहुंच सकता है।
- 7 **Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cook book contains instructions for the food you are cooking. And do not use newspaper in place of paper towels for cooking.**
पेपर टॉवल से लिपटा कर खाना न बनाएं न गरम करें जब तक कि आपकी भोजन निर्माण की पुस्तक में कुछ इस तरह का विशेष निर्देश न दिया गया हो। और इस दशा में भी पेपर टॉवल की जगह घरेलू अखबार इस्तेमाल न करें।
 - Improper use can cause an explosion or a fire.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से आग लग सकती है।
- 8 **Do not use wooden containers and ceramic containers that have metallic (e.g. gold or silver) inlays. Always remove metal twist ties. Check that the utensils are suitable for use in microwave ovens before use.**
सिरेमिक और लकड़ी के बने भगोने जिनमें अंदरूनी सतह धातु की बनी हो, इसमें न रखें। ये पहले देख लें कि आपके बर्तन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं।
 - They may heat-up and char. Metal objects in particular may arc in the oven, which can cause serious damage.
वे गरम हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। खासतौर पर धातु के पदार्थों में चिंगारियां आ सकती हैं जिससे गंभीर क्षति हो सकती है।
- 9 **Do not use recycled paper products.**
रीसायकल पेपर के बने हुए उत्पाद प्रयोग में न लाएं।
 - They may contain impurities which may cause sparks and/or fire when used in cooking.
उनमें अशुद्ध तत्व हो सकते हैं जो कि खाना बनाते समय चिंगारियों या आग लगने की वजह बन सकते हैं।
- 10 **Do not rinse the glass tray by placing it in water just after cooking. This may cause breakage or damage.**
खाना बनाने के तुरंत बाद ओवन की ग्लास ट्रे को धोने के लिए पानी में न डालें क्योंकि इससे प्लेट के टूटने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा हो सकता है।
 - Improper use could result in damage to your oven.
गलत तरीके से ओवन का इस्तेमाल करने से ओवन को नुकसान पहुंच सकता है।
- 11 **Be certain to place the oven so the front of the door is 8 cm or more behind the edge of the surface on which it is placed, to avoid accidental tipping of the appliance.**
सुनिश्चित करें कि आप ओवन को हमेशा इस तरह रखेंगे कि इसका सामने का द्वार सतह के किनारों से आठ सेंटीमीटर या अधिक पीछे रहे।

- Improper use could result in body injury and oven damage.
गलत तरीके से इस्तेमाल करने से शारीरिक दुर्घटना और ओवन की टूट-फूट का भी खतरा हो सकता है।
- 12 Before cooking, pierce the skin of potatoes, apples or any such fruit or vegetables.
पकाने से पहले आलू या सेब या इस तरह के अन्य छाल दार फल या सब्जियों में छेद कर लें।
 - They could burst.
वे अन्दर विस्फोट कर सकते हैं।
- 13 Do not cook eggs in their shell. Eggs in their shell and whole hardboiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
अंडे को छिलके के साथ इसके भीतर न पकाएं। छिलके सहित अंडा और उबला हुआ पूरा अंडा माइक्रोवेव में गर्म नहीं किया जाना चाहिए उसमें विस्फोट हो सकता है, तब भी जबकि माइक्रोवेव की हीटिंग समाप्त हो गई हो।
 - Pressure will build up inside the egg which will burst.
अंडे के अन्दर दबाव बनेगा और फिर बढ़ते-बढ़ते वो फट जाएगा।
- 14 Do not attempt deep fat frying in your oven.
ओवन के अन्दर अधिक तेल में खाद्य पदार्थ तलने की कोशिश कभी न करें।
 - This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
ऐसा करने से अन्दर गर्म हुआ तरल पदार्थ उबल कर बाहर फैल सकता है।
- 15 If smoke is observed, switch off or disconnect the oven from the power supply and keep the oven door closed in order to stifle any flames.
अगर धुआं महसूस हो तो स्विच ऑफ करें या पॉवर सप्लाय बंद कर दें और ओवन के दरवाजे कुछ देर बंद ही रहने दें ताकि लपटें अन्दर ही शांत हो सकें।
 - It can cause serious damage such as a fire or electric shock.
यह आग लगने या विद्युत के झटके जैसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
- 16 When food is heated or cooked in disposable containers made of plastic, paper or other combustible materials, keep an eye on the oven and check it frequently.
जब डिस्पोजेबल बर्तनों में, जो कि प्लास्टिक, कागज या दुसरे ज्वलनशील पदार्थों से बने हों, खाना गरम किया जाए या पकाया जाए, तब ओवन पर नजर रखिये और इसकी निगरानी करते रहें।
 - Your food may be poured due to the possibility of container deterioration, which also can cause a fire.
आपका खाना भी गिर कर फैल सकता है इसके भगोने के टूट जाने से और इससे भी आग लग सकती है।
- 17 The temperature of accessible surfaces maybe high when the appliance is operating. Do not touch the oven door, outer cabinet, rear cabinet, oven cavity during micro mode, grill mode, convection mode, combination mode & auto cook operations (feature are model specific). Before clearing utensils make sure they are not hot.
For accessories & dishes touch them using hand gloves. Adults should supervise their children during every mode of operation as temperature may be high.
उपकरण के संचालन के समय पास की सतह का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कन्वैक्शन मोड, कॉम्बिनेशन मोड और ऑटो कुक के संचालन (फीचर मॉडल विशेष के अनुसार) के दौरान ओवन की बाहरी सतह, पिछली सतह, ओवन केबिटी को न छुएं। बर्तनों को ओवन से निकालने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वे गर्म न हों। सहायक उपकरणों और डिश को हाथ के दस्ताने पहन कर ही छुएं। प्रत्येक मोड के संचालन के दौरान वयस्कों को अपने बच्चों की निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि तापमान बहुत अधिक हो सकता है।
 - As they will become hot, there is the danger of a burn unless wearing thick culinary gloves.
क्योंकि वे गर्म होने के बाद जलने का खतरा पैदा कर सकते हैं और इसके लिए किचन के मोटे दस्ताने पहनना चाहिए।
- 18 The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
ओवन को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उनके अन्दर किसी भी तरह के भोजन के अंश न छूटें, इसका ध्यान रखना चाहिए।
 - Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface.
This could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
ओवन की सफाई का ध्यान न रखने से इसकी सतह खराब हो सकती है। इससे ओवन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और यह खतरनाक भी हो सकता है।
- 19 If there are heating elements, the appliance becomes hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements inside the oven.
अगर ओवन में हीटर हों तो गरम करते समय उपकरण भी गर्म हो जाता है। ओवन के अन्दर रखे इस तरह के हीटर को छूने से बचना चाहिए।

- There is danger of a burn.

इसमें जलने का खतरा हो सकता है।

- 20 Follow exact directions given by each manufacturer for their popcorn product. Do not leave the oven unattended while the corn is being popped. If corn fails to pop after the suggested times, discontinue cooking. Never use a brown paper bag for popping corn. Never attempt to pop leftover kernels.**

पॉपकॉर्न के प्रोडक्ट्स के दिए गए सटीक निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब इसके अन्दर पॉपकॉर्न बनाए जा रहे हों तो इसकी अनदेखी न करें। अगर तय समय के भीतर भी कॉर्नस न फूल सकें तो हीटिंग बंद कर इन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए। ओवन में कॉर्नस को फूलाने के लिए कभी भी भूरा कागज का बैग इस्तेमाल में ना लाएं। ओवन में बचे हुए कॉर्नस के टुकड़ों को दुबारा उसमें गर्म न करें।

- Overcooking could result in the corn catching a fire.

अधिक पकाने से कॉर्नस में आग लग सकती है।

- 21 Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass.**

ओवन के दरवाजे को साफ करने के लिए खुरदरे सफाई एजेंट या धातु की वस्तु का इस्तेमाल न करें।

- They can scratch the surface, which may result in the glass shattering.

इससे सतह पर खरोंच लग सकती है, व काँच भी टूट सकता है।

- 22 This oven should not be used for commercial catering purposes.**

यह ओवन व्यावसायिक कैंटरिंग के प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

- Improper use could result in damage to your oven.

इसके गलत इस्तेमाल से इसमें खराबी आ सकती है।

- 23 The connection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.**

वायरिंग के नियमों का पालन करते हुए फिक्स्ड वायरिंग में प्लग या स्विच से जोड़ कर इसका कनेक्शन लगाना चाहिए।

- Using improper plug or switch can cause an electric shock or a fire

गलत प्लग या स्विच लगाने से विद्युत का झटका या आग लग सकती है।

- 24 The microwave oven shall be used freestanding.**

माइक्रोवेव ओवन को अलग रख कर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए।

- 25 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved.**

यह उपकरण 8 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और कम शारीरिक, समझ व दिमागी क्षमता वाले व्यक्ति को उपकरण से सम्बन्धित निर्देशों को ठीक प्रकार से सुपरवाइज करके बिना किसी रूकावट के चलाया जा सकता है।

- 26 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 year and above and supervised.**

बच्चों के लिए सुनिश्चित करें कि ये उपकरण के साथ नहीं खेले तथा सफाई व मेन्टीनेन्स 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को सुपरवाइज करके ही आपरेट करवाना चाहिए।

- 27 Oven Lamp power rating is 35 W.**

ओवन लैम्प की पावर रेटिंग 35 W है।

- 28 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or LG service technician or similarly qualified person in order to avoid a hazard.**

अगर पावर कोर्ड खराब है तो वो एक निर्माता द्वारा या LG सर्विस तकनीशियन या इसी तरह के किसी कुशल व्यक्ति द्वारा ही बदली जानी चाहिए।

- 29 The appliance is not intended to be operate by means of an external timer or separate remote-control system.**

उपकरण को किसी भी बाहरी टाइमर व अलग रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम से आपरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है।

- 30 Do not operate oven with wet /oily/ dirty hands as glass touch sensitivity may reduce little.**

ओवन को गीले/तेल वाले/गंदे हाथों से ना इस्तेमाल करें इससे ग्लास टच की संवेदनशीलता थोड़ी कम हो सकती है।

- ✦ **Use exclusive 230 V socket with earth.**
अर्थिंग के साथ 230 वोल्ट सॉकेट का इस्तेमाल करें।
- ✦ **Do not bend power cord forcefully or break.**
पावर कार्ड को ताकत के साथ न झुकाएं या तोड़े।
- ✦ **Do not pull out power cord.**
पावर कार्ड को खींचे नहीं।
- ✦ **Do not use several power plug in one socket at the same time.**
एक ही सॉकेट में एक ही समय कई पावर कार्ड्स का इस्तेमाल न करें।
- ✦ **Do not plug in or pull out power cord with wet hand.**
गीले हाथों से पावर कार्ड को न तो लगाएं न ही हटाएं।
- ✦ **Do not spray water inside and outside of microwave oven.**
माइक्रोवेव ओवन के भीतर और बाहर पानी के छीटें न मारें।
- ✦ **Plug out power cord during cleaning or maintenance of set.**
मरम्मत और सफाई के समय पावर कार्ड निकालना न भूलें।
- ✦ **Do not heat up the food more than necessary.**
खाने को ज़रूरत से ज्यादा गरम न करें।
- ✦ **Do not use microwave oven other than cooking or sterilization such as cloth drying etc.**
खाना बनाने या गरम करने के सिवा ओवन का कोई और इस्तेमाल न करें जैसे कपड़े सुखाना, आदि।
- ✦ **Do not insert pin or steel wire etc. into inside/out side of case.**
इसके भीतर/बाहर कहीं भी कोई पिन या लोहे का तार आदि न घुसाएं।
- ✦ **Please be careful during taking the food since high temp. water or soup may overflow to cause burn.**
खाने को बाहर निकालते समय कृपया सावधानी बरतें क्योंकि गरम पानी अथवा सूप आदि तरल पदार्थ उबल कर या छलक कर आपको जला सकते हैं।
- ✦ **Do not plug in power cord when socket hole is loose or plug is damaged.**
जब प्लग खराब हो या पावर सॉकेट ढीला हो तो इसे ठीक करने से पहले इसमें पावर कार्ड न लगाएं।
- ✦ **Do not use oven while some foreign material is attached on the door.**
जब भी ओवन के दरवाजे पर कोई चीज़ अड़ी या रखी हो, ओवन को चालू न करें।
- ✦ **Do not place the water container on the set.**
इस पर पानी का भगौना कभी न रखें।
- ✦ **Do not place heavy things on the set & do not cover the set with cloth while using.**
इस्तेमाल करते समय ओवन के ऊपर कभी भी भारी वस्तुएं न रखें न ही इसे कपड़े से ढकें।
- ✦ **Do not install the set in the damp space or water sputtering area.**
गीले या पानी के बहाव वाले क्षेत्र में ओवन को कभी न रखें।
- ✦ **Do not let children hang onto oven door.**
बच्चों को ओवन के दरवाजों पर लटकने से रोकें।
- ✦ **Do not heat the unpeeled fruit or bottle with lid.**
ढक्कन वाली बोटल और बिना छिला फल कभी इसके अन्दर रख कर गर्म न करें।
- ✦ **Do not hold food or accessories as soon as cooking is over.**
गर्म हो जाने या खाना बन जाने के तुरंत बाद ओवन से खाना या बर्तन बाहर न निकालें।
- ✦ **Plug out oven if it is not used for long duration.**
अगर ओवन को अधिक देर तक इस्तेमाल में न लाना हो तो खाली समय में इसकी पावर कार्ड को सॉकेट से निकाल कर रखें।

- ✦ Install microwave oven in the well ventilated, flat place.

माइक्रोवेव ओवन को अच्छी हवादार और समतल जगह पर रखें।

There is danger of blast if covered bottle, sealed food, egg, and chestnut etc. are cooked inside oven.

ओवन के भीतर ढक्कन लगी बोतल, अंडा, सील्ड खाद्य पदार्थ या चेस्टनट रख कर उसे चलाने से विस्फोट हो सकता है।

BEFORE USE / इस्तेमाल के पहले

Unpacking & Installing / खोलना और लगाना

By following the basic steps on these two pages you will be able to quickly check that your oven is operating correctly. Please pay particular attention to the guidelines on where to install your oven. When unpacking your oven make sure you remove all accessories and packing materials. Check to make sure that your oven has not been damaged during shipping.

इन दो पृष्ठों पर दिए गए बुनियादी तरीकों का कदम दर कदम इस्तेमाल करके बहुत शीघ्र आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवन कितना अच्छा चल रहा है। कृपया "ओवन को कहां रखें" इसके निर्देशों पर विशेष ध्यान दें। लगाने से पहले इसकी पैकिंग खोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके पैकिंग वाले सारे बंधन और इसकी एक्सेसरीज को पूरी तरह से खोल लें। इसे भी ठीक से देख लें कि लाने ले जाने में आपके ओवन में कहीं कोई टूट-फूट तो नहीं हुई।

1 Unpack your oven and place it on a flat level surface.

अपने ओवन की अन-पैकिंग के बाद इसे समतल सतह पर रखें।

Cooking Accessories / कुकिंग एक्सेसरीज



Glass tray / ग्लास ट्रे



Rotating ring / रोटेटिंग रिंग



High rack / हाई रैक





Low rack / लो रैक



Multicook Tawa / मल्टीकुक तवा

Disclaimer : This is only graphical representation of actual product यह मात्र जसाद की रेखांकित आकृति है



2 Place the oven on the level location of your choice with more than 85 cm height but make sure there is at least 20 cm of space on the top and 10 cm at the rear for proper ventilation.

The front of the oven should be at least 8 cm from the edge of the surface to prevent tipping.

An exhaust outlet is located on bottom or side of the oven. Blocking the outlet can damage the oven.

अपनी पसंद कि समतल जगह पर ओवन को रखें जहां ऊंचाई कम से कम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर से अधिक का स्थान हो और पीछे 10 सेंटीमीटर से अधिक स्थान हो ताकि ढंग से हवा आ सके। इसके सामने कम से कम 8 सेंटीमीटर से अधिक का स्थान होना चाहिए ताकि इसमें सामने से धक्का न लग सके। इसके तले पर या बगल में एक एग्जॉस्ट द्वार होता है इसका रास्ता रोकने से ओवन खराब हो सकता है।

! NOTE / ध्यान रहे

- THIS OVEN SHOULD NOT BE USED FOR COMMERCIAL CATERING PURPOSES.
- व्यावसायिक कैटरिंग के उद्देश्य से इन कार्यों हेतु इस ओवन का इस्तेमाल न करें।

- 3 Plug your oven into a standard household socket. Make sure your oven is the only appliance connected to the socket.
If your oven does not operate properly, unplug it from the electrical socket and then plug it back in.


अपने ओवन को एक अच्छे सॉकेट के साथ प्लग करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि इस सॉकेट में और कोई विद्युत उपकरण का तार न जोड़ा गया हो। **यदि आपका ओवन ढंग से काम न कर रहा हो तो इसे सॉकेट से निकाल कर दुबारा लगाएँ।**

- 4 Open your oven door by pulling the door handle. Place the rotating ring inside the oven and place the glass tray on top.

ओवन के डोर हैंडल को पकड़कर ही इसका द्वार खोलें और रोटेटिंग रिंग अन्दर बीच में लगाएँ और इसके ऊपर कांच की ट्रे रखें।

- 5 Fill a **microwave safe container** with 300 mL of water. Place on the glass tray and close the oven door. If you have any doubts about what type of container to use please refer to Page 13.

माइक्रोवेव सेफ कंटेनर को 300 मिली लीटर पानी से भरें। ओवन के भीतर कांच की प्लेट पर उसे रखें और दरवाजा बंद कर दें। अगर आपको इस बात पर कोई शंका हो कि आपको किस तरह का कंटेनर रखना है तो पृष्ठ 13 के निर्देशों को देख कर समझ लें।



- 6 Press the **STOP/CLEAR** button, and press the **START/Add 30 secs** button one time to set 30 seconds of cooking time.

STOP/CLEAR बटन को दबाएँ और **START/Add 30 secs** बटन को फिर एक बार दबाएँ और तीस सेकंड का समय सेट करें।



- 7 The **DISPLAY** will count down from 30 seconds. When it reaches 0 it will sound BEEPS. Open the oven door and test the temperature of the water. If your oven is operating the water should be warm.

Be careful when removing the container it may be hot.

डिस्प्ले 30 सेकंड तक गिनेगा और 0 पर पहुँच कर **बीप** की आवाज़ करेगा तब आप इसका द्वार खोल दें और पानी का तापमान चेक करें। अगर आपका ओवन ठीक से काम कर रहा है तो आपको पानी गर्म मिलेगा। **बर्तन को बाहर निकालते समय ध्यान रखें यह गर्म हो सकता है।**



YOUR OVEN IS NOW INSTALLED / अब आपका ओवन इंस्टाल हो चुका है।

- 8 The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption in order to avoid burns.





इसमें रखने से पहले बच्चे के दूध की बोतलें और खाने का जार के अन्दर के सामान को हिला अवश्य लें और इसे खिलाने से पहले इसका तापमान अवश्य देख लें ताकि बच्चे का मुँह न जले।

- 9 If oven gets overheated the display will be turned off for safety purpose, give it sometime to cool and then operate.

ओवन अधिक गरम होने पर डिस्प्ले सुरक्षा की वजह से बंद हो जाएगा इसे कुछ देर ठंडा करके फिर काम करने दे।

Method To Use Accessories As Per Mode /

मोड के अनुसार एक्सेसरीज़ प्रयोग करने की विधि

	Microwave	Grill	Convection	Grill combi	Conv combi
 High rack	✗	✓	✓	✓	✓
 Low rack	✗	✓	✓	✓	✓
 Glass tray	✓	✓	✓	✓	✓
 Multi Cook Tawa	✗	✓	✓	✓	✓
 Multi cook Tawa & Rack	✗	✓	✓	✓	✓

Caution : Do not operate Multicook tawa + Rack empty (without food) in combi mode.

Caution: Use accessories in accordance with cooking guides!

✓ Acceptable
✗ Not Acceptable

सावधानी: मल्टी-कुक तवा + रैक को (बिना खाने की सामग्री के) कोम्बी-मोड में इस्तेमाल न करें।

सावधानी: साथ वाले सभी उपकरणों को कुकिंग-गाइड के अनुसार ही ओपरेट करें।

✓ स्वीकार्य
✗ अस्वीकार्य

Caution: Do not wash the multi cook tawa with rough or sharp material.

मल्टी कुक तवा को खुरदरे या नुकीले पदार्थ से न धोएं।

Microwave-Safe Utensils / माइक्रोवेव सुरक्षित बर्तन

Never use metal or metal trimmed utensils in using microwave function / धातु या धातु के छिंट लगे हुए बर्तन इसमें इस्तेमाल न करें।

Microwaves cannot penetrate metal. They will bounce off any metal object in the oven and cause arcing, an alarming phenomenon that resembles lightning. Most heat resistant non metallic cooking utensils are safe for use in your oven. However, some may contain materials that render them unsuitable as microwave cookware. If you have any doubts about a particular utensil, there's a simple way to find out if it can be used in the microwave. Place the utensil in question next to a glass bowl filled with water in using microwave function. Microwave at power HIGH for 1 minute. If the water heats up but the utensil remains cool to the touch, the utensil is microwave-safe. However, if the water does not change temperature but the utensil becomes warm, microwaves are being absorbed by the utensil and it is not safe for use in using microwave function. You probably have many items on hand in your kitchen right now that can be used as cooking equipment in the microwave. Just read through the following checklist.

माइक्रोवेव्स धातु के भीतर नहीं जा पातीं। वे उसके भीतर रखे किसी भी धातु की वस्तु से टकरा कर चिंगारियां पैदा कर सकती हैं और यह स्थिति बिजली कड़कने जैसी एक चेतावनी का दुःख उपस्थित कर सकती है। ज्यादातर उष्णता-सह्य अधात्विक बर्तन ही ओवन में इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है। लेकिन कुछ माइक्रोवेव कुकवेयर जैसे बर्तनों में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो ओवन में इस्तेमाल के लिए उचित न हों। अगर कभी आपको किसी एक बर्तन के विषय में किसी प्रकार का संदेह हो तो एक सीधा सादा तरीका है इस बात को चेक करने का कि इस बर्तन को आप ओवन में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं।

ओवन के भीतर संदेहास्पद बर्तन को पानी से भरे एक कांच के कटोरे के बगल में रख कर ओवन चलाएं। माइक्रोवेव को हाई पावर पर रखकर एक मिनट तक चलने दें। यदि पानी गर्म हो जाए और छूने पर बर्तन ठंडा लगे तो समझ लें कि यह बर्तन ओवन के लिए सुरक्षित है। लेकिन यदि उल्टा हो यानी पानी ठंडा रहे और बर्तन गर्म हो जाए तो यह बर्तन ओवन के लायक नहीं है। हो सकता है ऐसी कई चीजें आपकी रसोई में हों जो कि खाना बनाने के काम में ओवन के भीतर रखे जाने को बिलकुल तैयार ही हों, ऐसी हालत में सुरक्षा को दृष्टि में रख कर इस चेकलिस्ट को पढ़ें:

Dinner plates/ डिनर प्लेट

Many kinds of dinnerware are microwave-safe. If in doubt consult the manufacturer's literature or perform the microwave test.

कई तरह के खाना खाने के बर्तन माइक्रोवेव-सुरक्षित होते हैं। अगर किसी बर्तन को लेकर आपके मन में कोई संदेह हो तो या तो निर्माता की गाइड चेक कर लें या उपरोक्त माइक्रोवेव टेस्ट करके जांच लें।

Glassware / कांच के बर्तन

Glassware that is heat-resistant is microwave-safe. This would include all brands of oven tempered glass cookware. However, do not use delicate glassware, such as tumblers or wine glasses, as these might shatter as the food warms.

जो भी कांच के बर्तन गर्मी सहने वाले होते हैं, माइक्रोवेव में सुरक्षित होते हैं। इसमें सभी तरह के ओवन के योग्य कांच के खाना बनाने वाले बर्तन हो सकते हैं। फिर भी कांच के नाजुक बर्तन जैसे टम्बलर, या वाइन ग्लासेस अधिक गर्मी को न सह पाने के कारण टूट भी सकते हैं।

Plastic storage containers / स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के भगोने

These can be used to hold foods that are to be quickly reheated. However, they should not be used to hold foods that will need considerable time in the oven as hot foods will eventually warp or melt plastic containers.

इनको खाना भरकर रखने के काम में लाया जा सकता है क्योंकि ये शीघ्रता से दुबारा भी गर्म किए जा सकते हैं। फिर भी इनमें वो खाना नहीं रखा जा सकता जिनको कि ओवन में पर्याप्त समय तक रखना जरूरी हो क्योंकि गर्म खाना आखिर में प्लास्टिक के भगोनों को पिघला या टेढ़ा-मेढ़ा कर सकता है।

Paper / कागज

Paper plates and containers are convenient and safe to use in using microwave function, provided that the cooking time is short and foods to be cooked are low in fat and moisture. Paper towels are also very useful for wrapping foods and for lining baking trays in which greasy foods such as bacon are cooked. In general, avoid coloured paper products as the colour may run. Some recycled paper products may contain impurities which could cause arcing or fires when used in the microwave.

कागज के बने प्लेटें और भगोने माइक्रोवेव ओवन के लिए आसान और सुरक्षित होते हैं लेकिन इसके लिए बस यही शर्त है कि कुकिंग का समय कम हो और खाना कम बसा और कम नमी वाला हो। खाने को लपेटने और पैक करने के और बैकन जैसे चिकने भोजन को रखने वाली बैकिंग ट्रे को जमाने के लिए पेपर टोवेल्स बहुत उपयोगी होती हैं। सामान्य तौर पर रंगीन कागज की बनी वस्तुएं न रखें क्योंकि रंग निकल सकता है। कई रिसाइकिल हुए रंगीन कागज के बने पात्रों में अशुद्धता हो सकती है जो ओवन की भीतर चिंगारियां या आग पैदा कर सकते हैं।

Plastic cooking bags / प्लास्टिक के कुकिंग-बैग

Provided they are made specially for cooking, cooking bags are microwave safe. However, be sure to make a slit in the bag so that steam can escape. Never use ordinary plastic bags for cooking in using microwave function, as they will melt and rupture.

कुकिंग बैग्स माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित होती हैं बशर्ते ये बर्तन कुकिंग के उद्देश्यों से ही बनाए गए हों। फिर भी ये सुरक्षा तय करने के लिए इनमें हमेशा एक छेद कर ही देना चाहिए ताकि भाप बाहर निकल सके। साधारण प्लास्टिक बैग कुकिंग के लिए ओवन में इस्तेमाल नहीं किये जाने चाहिए क्योंकि वे फट भी सकते हैं और पिघल भी सकते हैं।

Plastic microwave cookware / प्लास्टिक के बने माइक्रोवेव-पात्र

A variety of shapes and sizes of microwave cookware are available. For the most part, you can probably use items you already have on hand rather than investing in new kitchen equipment.

विविध आकार प्रकार के माइक्रोवेव हेतु प्लास्टिक-बर्तन उपलब्ध हैं। फिर भी अधिक प्रयास यही होना चाहिए कि आप के पास उपलब्ध बर्तनों को ही आप इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप नए बर्तनों में खर्चा करें।

Pottery, stoneware and ceramic / मिट्टी, पत्थर और सिरेमिक के बर्तन

Containers made of these materials are usually fine for use in using microwave function, but they should be tested to be sure.


इस तरह के बर्तन आम तौर पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल के लिए अच्छे होते हैं फिर भी सुनिश्चित करने के लिए इनका परिक्षण कर लेना चाहिए।



CAUTION / सावधानी

- Some items with high lead or iron content are not suitable as cooking utensils.
- Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the microwave.
- सीसा या धातु मिले पात्र ओवन में खाना बनाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- ओवन में इस्तेमाल करने से पहले "सदैव" बर्तनों का उचित परिक्षण कर लें।

Touch Panel




Disclaimer: The control panel printing may differ from actual product.
कंट्रोल पैनल की प्रिंटिंग वास्तविक उत्पाद से भिन्न हो सकती है।

Using Glass touch controller

1. Touch the middle of letter or number to activate.
2. If you touch the button with a fingernail or fingertip the controller may not sense it is being touched.
3. If the controller or your hands are wet it may not sense your touch.
4. Remove gloves prior to touching the controller

Part	
1	Charcoal Check the recipe manual
2	Indian Bread Basket Check the recipe manual
3	Diet Fry/Steam Cook Check the recipe manual
4	Nutri Care Check the recipe manual
5	Indian Rasoi Check the recipe manual
6	Kids' Delight Check the recipe manual
7	Sweet & Spicy Check the recipe manual
8	24 Hours Check the recipe manual
9	Continental Check the recipe manual
10	Steam Clean Check the recipe manual
11	Select Manual Cooking For selecting Micro, Grill, Convection & Combi Functions.
12	Just 4 U/Utility Corner Check the recipe manual
13	-Less/+More For decreasing/increasing the cooking time & selecting auto cook weight limit.
14	For Selecting the cooking time
15	STOP/CLEAR (Energy Saving) Used to stop oven and clear all entries. For Energy saving feature.
16	START/Add 30 secs • In order to start cooking which is selected, press START/Add 30 secs button one time. • The START/Add 30 secs feature allows you to set 30 seconds intervals of HIGH power cooking with a touch of the Add 30 secs button

Touch Panel/टच पैनल



Disclaimer: The control panel printing may differ from actual product.
कन्ट्रोल पैनल की प्रिन्टिंग वास्तविक उत्पाद से भिन्न हो सकती है।

ग्लास टच कन्ट्रोलर इस्तेमाल के लिए।

- सक्रिय करने के लिए अक्षर या संख्या के बीच टच करें।
- अगर आप नाखून या ऊँगली के पोर के साथ बटन छुएंगे, तो कन्ट्रोलर वह महसूस नहीं कर पाएगा।
- अगर कन्ट्रोलर या आपके हाथ गीले हैं तो कन्ट्रोलर वह स्पर्श महसूस नहीं कर पाएगा।
- कन्ट्रोलर छूने से पहले दस्ताने निकाल दें।

पार्ट

1	Charcoal	व्यंजन-विधि की निर्देशिका देखें
2	Indian Bread Basket	व्यंजन-विधि की निर्देशिका देखें
3	Diet Fry / Steam Cook	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
4	Nutri Care	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
5	Indian Rasoi	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
6	Kids' Delight	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
7	Sweet & Spicy	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
8	24 Hours	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
9	Continental	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
10	Steam Clean	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
11	Select Manual Cooking	माइक्रो, ग्रिल, कनवेक्शन और कॉम्बी फंक्शन चुनने के लिए
12	Just 4 U/Utility Corner	व्यंजन-विधि की मैनुअल देखें
13	-Less/+More	खाना पकाने के समय को घटाने/बढ़ाने के लिए और ऑटो कुक के वज़न को चुनने के लिए
14	For Selecting the cooking time	खाना पकाने का समय निर्धारित करने के लिए
15	STOP/CLEAR (Energy Saving)	ओवन को रोकने और सभी एन्टीज को हटाने के लिए। एन्जी सेविंग फीचर के लिए।
16	START/Add 30 secs	• कुकिंग को शुरू करने के लिए दबाए जाने वाले START बटन को आप एक बार दबाएँ। • START/Add 30 secs वाले फीचर को इस्तेमाल करके आप फटाफट तीस सेकंड्स की हाई पावर कुकिंग कर सकते हैं।

Child Lock / चाइल्ड लॉक

In the following example, show you how to set the child lock.
निम्नलिखित उदाहरण में आप देखेंगे कि चाइल्ड लॉक कैसे लगाएँ।

- 1 Press **STOP/CLEAR**.
STOP/CLEAR को दबाएँ।



- 2 Press and hold **STOP/CLEAR** until BEEP sounds.

The "Child Lock" is now set.

If any button is pressed, "L" will appear on the display.

STOP/CLEAR को दबा कर रखें जब तक कि बीप सुनाई न दे।

अब चाइल्ड लॉक सेट हो चुका है। अब कोई भी बटन दबाने से "L" डिस्प्ले पर आ कर बताएगा कि **Child Lock** लगा हुआ है, अब कुछ नहीं किया जा सकता।



- 3 To cancel **CHILD LOCK** press and hold **STOP/CLEAR** until "L" disappears.

You will hear BEEP when it's unlocked.

"चाइल्ड लॉक" को स्थगित करने के लिए **STOP/CLEAR** को दबाकर पकड़े रखें जब तक कि "L" गायब न हो जाए और जब आपको बीप की आवाज़ सुनाई पड़े तो आप समझ लें कि चाइल्ड लॉक हट गया है।



NOTE / नोट

Your oven has a safety feature that prevents accidental running of the oven. Once the child lock is set, you will be unable to use any functions and no cooking can take place.

आपके ओवन में एक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है जो कि ओवन के अकस्मात् चालू हो जाने की दिशा में उसको रोकने का कार्य करती है। एक बार चाइल्ड लॉक लग गया तो आप कोई भी बटन दबाएँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

Add 30 secs / एड 30 सेकंड

In the following example, show you how to set 2 minutes of cooking on 900 W power.

दिए गए उदाहरण में आपको दिखाया जाएगा कि 2 मिनट्स का टाइम सेट करके किस तरह आप खाना बनाने के लिए 900 वाट पॉवर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- 1 Press **STOP/CLEAR**




STOP/CLEAR को दबाएँ।

- 2 Press **START/Add 30 secs** four times to select 2 minutes on 900 W power.

Your oven will start before you have finished the fourth press.

चार बार "START/Add 30 secs" दबा कर 900 वाट पॉवर पर 2 मिनट का टाइम सेट करें। आपके द्वारा चौथी बार बटन दबाने से पहले ही ओवन चलना शुरू हो जाएगा।



- 3 During **START/Add 30 secs** cooking, you can extend the cooking time up to 99 minutes 59 seconds by Pressing **+More**

"START/Add 30 secs" की कुकिंग के समय यदि आप चाहें तो टाइम सेटिंग को बढ़ा कर अधिकतम 99 मिनट 59 सेकंड्स कर सकते हैं पर इसके लिए आपको **+More** दबाना पड़ेगा।



NOTE / नोट

The **START/Add 30 secs** feature allows you to set 30 seconds intervals of HIGH power cooking with a touch of the **START/Add 30 secs** button.

START/Add 30 secs कुकिंग की व्यवस्था द्वारा आप 30 सेकंड्स की हाई पावर कुकिंग कर सकते हैं जिसके लिए आपको **START/Add 30 secs** दबाना होगा।

HOW TO USE / किस तरह इस्तेमाल करें

Micro Power Cooking / माइक्रो पावर कुकिंग

In the following example, show you how to cook some food on 720 W power for 5 minutes.

निम्नलिखित उदाहरण में आपको दिखाया जाएगा कि 720 वाट पावर का प्रयोग करके आप किस तरह 5 मिनट में कोई भोजन तैयार कर सकते हैं।

1 Press **STOP/CLEAR**.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press **Micro**.

The following indication is displayed: "≡":

Micro दबाएँ।

तब ये चिन्ह आपको दिखाई देगा: "≡"



3 Press **Micro** once more, display will show "720"

Micro एक बार और दबाएँ। डिस्पले पर "720" दिखाई देगा।




4 Press 1min 5 times.

Press **START/Add 30 secs**.

1min 5 बार दबाएँ।

START/Add 30secs दबाएँ।

1 min.



! NOTE / नोट

- Your oven has 5 microwave power settings. High power is automatically selected and pressing **Micro** will select a different power level.
- Food to be cooked should be placed in a microwave-safe utensils.
- Please do not use the following accessories in **MICRO MODE**.
- आपके ओवन में 5 माइक्रोवेव पावर सेटिंग्स हैं। हाई पावर का चयन अपने आप ही हो जाता है और **Micro** को दबाने से दूसरी पावर लेवल सेट होती है।
- जिस भोजन को कुक करना हो उसे माइक्रोवेव सेफ बर्तनों में ही रखकर ओवन का इस्तेमाल करें।
- निम्न एक्सेसरीज का उपयोग **माइक्रो मोड** में कृपया न करें।



High rack

हाई रैक



Low rack

लो रैक



Multicook Tawa

मल्टी कुक तवा

Micro Power Level / माइक्रो पावर लेवल

This oven is equipped with 5 power levels to give you maximum flexibility and control over cooking.

The table below shows some examples of food and their recommended cooking power levels for use with this oven.

यह ओवन 5 पावर लेवल्स वाला है ताकि आपको भोजन निर्माण हेतु अधिकतम विविधता और नियंत्रण उपलब्ध होता है। नीचे की सारणी में कुछ व्यंजन और इस ओवन में उनके निर्माण हेतु निर्धारित पावर लेवल प्रदर्शित किये गए हैं:

POWER LEVEL	OUTPUT	USE	ACCESSORY
HIGH	900 W	<ul style="list-style-type: none"> Boil water Brown minced beef Cook poultry pieces, fish, vegetables Cook tender cuts meat 	Microwave Safe Plate/ Microwave Safe Bowl/ Microwave Safe Glass Bowl
MEDIUM HIGH	720 W	<ul style="list-style-type: none"> All reheating Roast meat and poultry Cook mushrooms and shellfish Cook foods containing cheese and eggs 	
MEDIUM	540 W	<ul style="list-style-type: none"> Bake cakes and scones Prepare eggs Cook custard Prepare rice, soup 	
MEDIUM LOW	360 W	<ul style="list-style-type: none"> All thawing Melt butter and chocolate Cook less tender cuts of meat 	
LOW	180 W	<ul style="list-style-type: none"> Soften butter & cheese Soften ice cream Raise yeast-based dough 	

पावर लेवल	आउटपुट	इस्तेमाल	एक्सेसरी
उच्च	900 वाट	<ul style="list-style-type: none"> पानी उबालना ब्राउन वीफ का कीमा मुर्गे, मछली और सब्जियों के टुकड़ों को पकाना कटा हुआ कोमल मांस 	माइक्रोवेव सुरक्षित प्लेट/ माइक्रोवेव सुरक्षित बर्तन/ माइक्रोवेव सुरक्षित कांच का बर्तन
मध्यम उच्च	720 वाट	<ul style="list-style-type: none"> पूर्णतया दुबारा गर्म करना भुना हुआ मांस और मुर्गे मशरूम और शेलफिश पकाना पनीर और अंडे-युक्त भोजनों का निर्माण 	
मध्यम	540 वाट	<ul style="list-style-type: none"> बेक हुए केक और स्कोन्स अंडों को तैयार करना कस्टर्ड बनाना चावल और सूप बनाना 	
कम मध्यम	360 वाट	<ul style="list-style-type: none"> पूर्ण थाविंग मक्खन और चॉकलेट कुछ कम कोमल मांस को पकाना 	
एकदम कम	180 वाट	<ul style="list-style-type: none"> मक्खन और चीज़ को नरम करना आइसक्रीम को नरम करना आटे में खमीर उठाना 	

Grill Cooking / ग्रिल कुकिंग

In the following example, show you how to use the Grill to cook some food for 12 minutes.

नीचे दिए उदाहरण में आपको दिखाया जाएगा कि आप ग्रिल का इस्तेमाल करके कुछ किस्म का भोजन निर्माण 12 मिनट में कैसे कर सकते हैं।

1 Press STOP/CLEAR.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press Grill.

The following indication is displayed: "uuu".

Grill दबाएँ।

नीचे दिया गया चिन्ह आपको दिखाई देगा: "uuu".



3 Press 10 min. 1 time. Press 1 min. 2 times.

10 min. 1 बार दबाएँ।

1 min. 2 बार दबाएँ।



4 Press START/Add 30 secs.

START/Add 30 secs दबाएँ।



CAUTION / सावधानी

Always use oven gloves when removing the food and accessories after cooking as the oven & accessories will be very hot.

हमेशा दस्ताने पहन कर ओवन में रखा खाना और सह-उपकरण हटाइये क्योंकि ये दोनों ही बहुत गर्म हो सकते हैं।

NOTE / नोट

- This feature will allow you to brown and crispy food quickly.
- For the best result use the following accessory.
- इस व्यवस्था के द्वारा आप भूरा और कुरकुरा भोजन तुरंत तैयार कर सकेंगे।
- सुविधाओं का सर्वोत्तम लाभ लेने हेतु कृपया निम्न एक्सेसरी का उपयोग करें।



High rack

हाई रैक

Grill Combi Cooking / ग्रिल-कॉम्बी कुकिंग

In the following example, show you how to program your oven with micro power 360 W and grill for a cooking time of 25 minutes.

नीचे दिए गए उदाहरण में आपको दिखाया जायेगा कि अपने ओवन को किस तरह से प्रोग्राम करें ताकि 360 माइक्रो पावर वाट और ग्रिल का इस्तेमाल करके 25 मिनट्स में भोजन निर्माण करें।

1 Press **STOP/CLEAR**.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press **Combi**.

Combi दबाएँ।



3 Press **Grill**.

Grill दबाएँ।



4 Keep pressing **Micro** until display shows "360".

माइक्रो तब तक दबाते रहें जब तक डिस्पले पर "360" न दिखाई दे।



5 Press **10 min.** 2 times.

Press **1 min.** 5 times.

10 min. को 2 बार दबायें।

1 min. को 5 बार दबायें।



6 Press **START/Add 30 secs**.

START/Add 30 secs दबाएँ।



! NOTE / नोट

- Your oven has a combination cooking feature which allows you to cook food with **Heater** and **Microwave**. This generally means it takes less time to cook your food.
- You can set three kinds of micro power level (180 W, 270 W, and 360 W) in grill combi mode.
- This feature will allow you to brown and crispy food quickly.
- आपके ओवन में कॉम्बिनेशन कुकिंग की सुविधा उपलब्ध है जिससे कि आप **हीटर** और **माइक्रोवेव** के माध्यम से भोजन तैयार कर सकें। इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि आप कम समय में अपना भोजन पका सकते हैं।
- आप ग्रिल कॉम्बी मोड में तीन तरह के माइक्रो पावर लेवल सेट कर सकते हैं (180 W, 270 W और 360 W)।
- इस सुविधा द्वारा आप भूरा और कुरकुरा खाना तुरंत तैयार कर सकते हैं।

Convection Preheat / कन्वेक्शन प्रीहीट

In the following example, show you how to preheat the oven to a temperature of 200 °C.

नीचे दिए उदाहरण में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से 200 सेंटीग्रेड तापमान पर अपने ओवन को प्रीहीट करें।

1 Press STOP/CLEAR.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press Conv.

The display will show "180°C" "⌘".

Press + More 2 times.

The display will show "200°C" "⌘".

Conv. दबाएँ।

डिसप्ले "180°C" "⌘" दिखाएगा।

+ More. 2 बार दबाएँ।

डिसप्ले "200°C" "⌘" दिखाएगा।



3 Press START/Add 30 secs.

Preheating will be started with displaying "Pr-h"

START/Add 30 secs दबाएँ।

प्रीहीट चालू हो जाएगा और आपको डिसप्ले पर दिखेगा "Pr-h"।



NOTE / नोट

- The convection oven has a temperature range of 40 °C and 100~230 °C.
- The oven has a ferment function at the oven temperature of 40 °C. You may wait until the oven is cool because you cannot use a ferment function if the oven temperature is over 40 °C.
- Your oven will take a few minutes to reach the selected temperature.
- Once it has reached correct temperature, your oven will BEEP to let you know that it has reached the correct temperature.
- Then place your food in your oven and to start cooking.
- कन्वेक्शन ओवन में तापमान का क्षेत्र 40 °C से लेकर 100-230 °C तक होता है।
- ओवन में 40 °C पर फर्मन्टेशन की सुविधा भी होती है। आपको ओवन को ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि यदि ओवन का तापमान 40 °C से अधिक है तो आप फर्मन्टेशन की इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते।
- आपका ओवन चुने गए तापमान पर आने में कुछ मिनट का समय लेगा।
- सही तापमान पर आकर आपको इसकी जानकारी के लिए बीप की आवाज़ सुनाई देगी।
- तब आप भोजन ओवन के भीतर रख कर अपनी कुकिंग शुरू कर सकते हैं।

Convection Cooking / कन्वेक्शन कुकिंग

The multicook tawa & low rack must be used during convection cooking.

In the following example, show you how to cook some food at a temperature of 230 °C for 50 minutes.

कन्वेक्शन कुकिंग के दौरान मल्टीकुक तवा और लो रैक का उपयोग करना चाहिए।

नीचे दिए उदाहरण में आपको दिखाया जाएगा कि 50 मिनट में 230 °C तापमान पर भोजन कैसे तैयार करें।

1 Press STOP/CLEAR.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press Conv.

The display will show "180°C" "°C".

Conv. दबाएँ।

डिस्पले पर "180°C" "°C" दिखाई देगा।



3 Keep pressing + More until display shows "230°C".

+ More दबाते रहें जब तक डिस्पले पर "230°C" न दिखाई दें।



4 Press 10 min. 5 times.

10 min. को 5 बार दबाएँ।



5 Press START/Add 30 secs.

START/Add 30 secs दबाएँ।



! CAUTION / सावधानी

Always use oven gloves when removing the food and accessories after cooking as the oven & accessories will be very hot.

हमेशा ओवन से खाना निकालते समय और एक्सेसरीज को हटाने के समय दस्ताने पहने रखें क्योंकि ये दोनों ही काफी गर्म हो सकते हैं।

! NOTE / नोट

If you do not set a temperature your oven will automatically select 180°C, the cooking temperature can be changed by +More/-Less

For the best result please use the following accessory

अगर आप तापमान नहीं चुनेगे आपका ओवन अपने आप ही '180°C' पर चला जाएगा। + More/-Less के माध्यम से कुकिंग का तापमान परिवर्तित किया जा सकता है।

सर्वोत्तम परिणाम हेतु निम्न एक्सेसरीज को उपयोग में लाएँ।



Low rack
लो रैक

Convection Combi Cooking / कन्वेक्शन कॉम्बी कुकिंग

In the following example, show you how to program your oven with micro power 270 W and at a convection temperature 200 °C for a cooking time of 25 minutes.

नीचे दिए उदाहरण में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने ओवन को 270 वाट क्षमता पर 25 मिनट्स के समय में कन्वेक्शन तापमान 200 °C पर कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं।

1 Press STOP/CLEAR.

STOP/CLEAR को दबाएँ।



2 Press Combi.

The display will show "uu" "°C".

Press Conv.

Press + More 2 times.

Combi दबाएँ।

डिस्प्ले "uu" "°C" दिखाएगा।

Conv. दबाएँ।

+ More 2 बार दबाएँ।



3 Keep pressing Micro until display shows "270".

Micro दबाते रहें जब तक डिस्प्ले "270" न दिखाए।



4 Press 10 min. 2 times.

Press 1 min. 5 times.


10 min. 2 बार दबाएँ।

1 min. 5 बार दबाएँ।



5 Press START/Add 30 secs.

START/Add 30 secs बटन दबाएँ।



CAUTION / सावधानी

Always use oven gloves when removing the food and accessories after cooking as the oven & accessories will be very hot.

हमेशा ओवन के भीतर से खाने को और एक्सेसरीज़ को निकालते समय दस्ताने पहनिए क्योंकि ये दोनों ही काफी गर्म हो सकते हैं।

NOTE / नोट

You can set three kinds of micro power level 180 W, 270 W and 360 W.

आप तीन तरह के माइक्रो पावर लेवल सेट कर सकते हैं (180 वाट, 270 वाट और 360 वाट)।

- For selecting auto cook menu (fast forward) press the key continuously.
- If you skip the favourite auto cook menu code, then you have to restart the selection from beginning.
- ऑटो कुक मेनू (Fast forward) चुनने के लिए, की को लगातार दबा कर रखें।
- अगर मनपसंद ऑटो कुक मेनू कोड आपसे छुट जाता है तो शुरुआत से चुनना पड़ेगा।

More Or Less Cooking / ज्यादा या कम कुकिंग

In the following example, show you how to change the preset COOK programs for a longer or shorter cooking time.


दिए गए उदाहरण में आपको बताया जाएगा की छोटी और बड़ी कुकिंग के लिए प्रीसेट 'कुक' प्रोग्राम को किस तरह बदलें।

- 1 Press **STOP/CLEAR**.
STOP/CLEAR को दबाएँ।



- 2 Set the required preset COOK program.
Select weight of food.

आवश्यकतानुसार प्रीसेट **कुक** प्रोग्राम को सेट कर दीजिये।
खाने का वजन तय कीजिये।



- 3 Press **START/Add 30 secs**.

Press **-Less /+More**.

The cooking time will decrease or increase.

START/Add 30 secs दबाएँ।

-Less / +More दबाएँ।

कुकिंग का टाइम कम या ज्यादा हो जाएगा।



! NOTE / नोट

- If you find that your food is over or undercooked when using the preset COOK program, you can increase or decrease cooking time by Pressing the **-Less / +More**
- You can lengthen or shorten the cooking time at any point by pressing **-Less / +More**
Do not increase or decrease the time during defrost mode. It may affect the performance of defrost mode.
- अगर प्रीसेट कुक का इस्तेमाल करके आपका खाना अधिक या कम पकेगा तो आप **-Less / +More** दबा कर समय को कम या अधिक कर सकते हैं।
- किसी भी समय **-Less / +More** के द्वारा आप कुकिंग की समय सीमा को कम या अधिक कर सकते हैं।
डिफ्रॉस्ट मोड इस्तेमाल करने के दौरान समय कम या अधिक ना करें। इससे डिफ्रॉस्ट मोड की परफॉर्मन्स पर असर पड़ सकता है।

Energy Saving / ऊर्जा बचत

The microwave oven allows you to save energy by display off when not cooking in oven.

जब आप खाना नहीं पका रहे हों तब डिसप्ले ऑफ होने पर माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा बचाता है।

- 1 When Door Open Condition (Lamp on & Display on):
डोर खुली अवस्था (लैम्प और डिसप्ले खुला है)

Press **STOP/CLEAR** one time.
STOP/CLEAR एक बार दबाएँ।



Lamp Off & Display Off. (Both together)
लैम्प और डिसप्ले बन्द हो जाएंगे। (दोनों एक साथ)

Press any key on keypad, display shows that key related display & Lamp is turned on.
कोई भी की दबाएँ उस की से संबंधित डिसप्ले दिखाई देगा और लैम्प चालू हो जायेगा।

- 2 When Door Close condition (Lamp off & Display on):
डोर बन्द अवस्था (लैम्प बन्द और डिसप्ले खुला है)

Press **STOP/CLEAR** one time
STOP/CLEAR एक बार दबाएँ।



Lamp Off & Display Off. (Both together)
लैम्प और डिसप्ले बन्द हो जाएंगे। (दोनों एक साथ)

Press any key on key pad, display shows that key related display & Lamp is turned off.
कोई भी की दबाएँ, उस की से संबंधित डिसप्ले दिखाई देगा और लैम्प बन्द होगा।

- 3 When door is open (Lamp on & Display on)
डोर खुली अवस्था (लैम्प और डिसप्ले खुला है)

Door is open for 5 minutes, lamp & display are auto cut off.
डोर खुलने के पाँच मिनट बाद लैम्प स्वतः बंद हो जायेगा।

- a) When any key is pressed, lamp & display are turned on.
जब आप कोई की दबायेंगे तो लैम्प/डिसप्ले फिर से चालू हो जायेगा।
- b) If door is closed, after 5 minutes display is turned off.
अगर डोर बंद है, तो 5 मिनट के बाद डिसप्ले बंद हो जायेगा।

To Clean Your Oven / अपने ओवन को साफ करना

1 Keep the inside of the oven clean

Food splatters or spilled liquids stick to oven walls and between the seal and door surfaces. It is best to wipe up spillovers with a damp cloth right away. Crumbs and spillovers will absorb microwave energy and lengthen cooking times. Use a damp cloth to wipe out crumbs that fall between the door and the frame. It is important to keep this area clean to assure a tight seal. Remove greasy splatters with a soapy cloth then rinse and dry. Do not use harsh detergent or abrasive cleaners.

The multi cook tawa (model specific) can be washed by hand or in the dishwasher.

ओवन के भीतरी हिस्से को साफ रखें

खाने के टुकड़े या तरल पदार्थों के छींटे दीवारों पर और सील तथा दरवाजों के बीच की सतह पर चिपक जाते हैं। एक गीले कपड़े से इसको तुरंत साफ करना आवश्यक है। ये खाने के छोटे टुकड़े और तरल पदार्थों की बूंदे माइक्रोवेव की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह खाना बनने का समय लंबा हो सकता है। दरवाजे और खांचों के बीच गिरे हुए इन खाने के टुकड़ों को गीले कपड़े से साफ करें। टाईट सील के लिए यह सफाई रखनी बहुत जरूरी है। तैलीय छींटों को हटाने के लिए साबुन से भीगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे धो कर सुखा लें। कठोर डिटरजेंट का इस्तेमाल न करें।

मस्टी कुक तवा (मॉडल विशेष) को हाथों से या डिशवाशर में धोई जा सकती हैं।

2 Keep the outside of the oven clean

Clean the outside of your oven with soap and water then with clean water and dry with a soft cloth or paper towel. To prevent damage to the operating parts inside the oven, the water should not be allowed to seep into the ventilation openings. To clean control panel, open the door to prevent the oven from accidentally starting, and wipe a damp cloth followed immediately by a dry cloth. Press STOP/CLEAR after cleaning.

ओवन का बाहरी हिस्सा साफ रखें

साबुन और साफ पानी से इसके बाहरी हिस्सों को साफ करें और मुलायम कपड़े या पेपर टॉवल से इसे पोंछ कर सुखाएं। ओवन के भीतर इसके काम करने वाले हिस्सों को टूट-फूट से बचाने के लिए पानी को हवा आने वाले रास्तों पर जमा न होने दें। कंट्रोल पैनल को साफ करने के लिए दरवाजा खुला ही रखें ताकि कहीं गलती से ओवन चालू न हो जाए। फिर इसे एक गीले कपड़े से साफ करके सूखे कपड़े से पोंछ दें। सफाई के बाद STOP/CLEAR बटन दबाएं।

3 If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe the panels with a soft cloth. This may occur when the oven is operated under high humid conditions and in no way indicates a malfunction of the unit.

अगर दरवाजों के बाहर या भीतर भाप इकट्टी हो जाए तो एक मुलायम कपड़े से पैनल को पोंछ दें। बहुत नमी हो जाने पर ओवन के संचालन के कारण ऐसा हो सकता है यह कोई ओवन की खराबी नहीं है।

4 The door and door seals should be kept clean. Use only warm, soapy water, rinse then dry thoroughly

DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, SUCH AS CLEANING POWDER OR STEEL AND PLASTIC PADS.

Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth.

दरवाजे और उनकी सील साफ रखी जानी चाहिए। गर्म साबुन वाला पानी लेकर पूरी तरह से धोएं और फिर सुखाएं। स्टील और प्लास्टिक के नुकीले पैड्स और क्लीनिंग पाउडर का इस्तेमाल न करें। गीले कपड़े से नियमित रूप से पोंछने से आप धातु के हिस्सों को ठीक रख सकते हैं।

5 Do not use steam cleaners.

स्टीम क्लीनर्स का प्रयोग न करें।

6 Unplug your oven from the electrical socket when you clean control panel with wet cloth or spray water on control glass to clean. If it is not unplugged, this product can be operated by touching the START/Add 30 secs button.

गीले कपड़े से कंट्रोल पैनल को साफ करते समय या कंट्रोल ग्लास को साफ करने के लिए स्प्रे करते समय अपने ओवन को बिजली के सॉकेट से अलग करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो START/Add 30 secs बटन को छूने मात्र से यह स्टार्ट हो सकता है।

QUESTIONS & ANSWERS / प्रश्न और उत्तर

FAQ	Answer
What's wrong when the oven light will not glow?	There may be several reasons why the oven light will not glow. Either the light bulb has blown or the electric circuit has failed.
Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?	No. The holes, or ports, are made to allow light to pass; they do not let microwave energy through.
Why does the BEEP tone sound when a button on the control panel/touch panel is touched?	The BEEP tone sounds to assure that the setting is being properly entered.
Will the microwave function be damaged if it operates empty?	Yes. Never run it empty.
Why do eggs sometimes pop?	When baking, frying, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk before cooking. Never microwave eggs in the shell.
Why is standing time recommended after microwave cooking is over?	After microwave cooking is finished, food keeps on cooking during standing time. This standing time finishes cooking evenly throughout the food. The amount of standing time depends on the density of the food.
Why doesn't my oven always cook as fast as the cooking guide says?	Check your cooking guide again to make sure you've followed directions correctly, and to see what might cause variations in cooking time. Cooking guide times and heat settings are suggestions, chosen to help prevent overcooking, the most common problem in getting used to this oven. Variations in the size, shape, weight and dimensions of the food require longer cooking time. Use your own judgment along with the cooking guide suggestions to test food conditions, just as you would do with a conventional cooker.

आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल	जवाब
तब क्या करें जब ओवन की बत्ती न जले?	ओवन की बत्ती के न जलने के कई कारण हो सकते हैं—जैसे कि या तो बल्ब खराब हो गया है या कनेक्शन में कोई गड़बड़ी आ गई है।
क्या दरवाजे के पारदर्शी स्क्रीन से माइक्रोवेव ऊर्जा बाहर आ सकती है?	नहीं। उनसे प्रकाश तो बाहर आ सकता है माइक्रोवेव ऊर्जा नहीं।
जब भी कंट्रोल पैनल/टच पैनल का कोई बटन छुआ जाता है तो बीप की ध्वनि क्यों आती है?	बीप की ध्वनि से आपको यह पता चलता है की सेटिंग सही चल रही है।
अगर गलती से ओवन को खाली ही चला दिया जाए तो क्या इसमें गड़बड़ी आ सकती है?	हाँ, इसलिए इसे कभी भी खाली नहीं चलाइये।
कभी कभी अंडे क्यों तड़क कर फट जाते हैं?	जब भी अंडे को भूना, तला या पकाया (पोच) जाता है तब अन्दर भाप बनने से इसका योक फट सकता है। इससे बचने के लिए इसको बनाने से पहले इसके योक में एक छेद कर देना चाहिए। माइक्रोवेव के भीतर कभी भी अंडों को शैल के साथ न रखें।
माइक्रोवेव कुकिंग हो जाने के बाद कुछ रुकने को क्यों कहा जाता है?	माइक्रोवेव कुकिंग के खत्म हो जाने के बाद भी खाना अन्दर ही अन्दर पकता रहता है तो थोड़ा रुक जाने पर वह पकने का कार्य तब तक समाप्त हो जाता है। इस समापन में लगने वाला समय अन्दर रखे खाने की गहनता पर निर्भर करता है।
कुकिंग गाइड में जैसा लिखा होता है उतनी तेजी से ओवन में खाना क्यों नहीं पकता?	ध्यान से दुबारा अपनी कुकिंग गाइड को पढ़ें कि कहीं उसके कदम दर कदम निर्देशों के पालन में आपसे कोई भूल तो नहीं हुई? और इस तरह देखें कि और क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपको अधिक समय लग गया। इसमें लिखे गए समय की सीमा का उद्देश्य आपके खाने को अधिक पक जाने से बचाना है। खाने के रूप रंग और आकार में विविधता से इसके निर्माण में भी उसी अनुसार समय कम या अधिक लगता है। आप अपनी समझ के मुताबिक पकने वाले समय का सही अनुमान करें जैसा कि आप अपने पारंपरिक कुकर के साथ करती हैं।


Two Recipe for starters

नवसिखियों के लिए दो व्यंजन विधियां


NOTE : The time variation during cooking of recipe depends upon the ingredients, method adopted & type of food category

ध्यान दें: इस भोजन में लगने वाला समय इसके तत्वों, इसके बनाने की प्रणाली और यह किस वर्ग का भोजन है – इन पर निर्भर करेगा।

1



Papad placed at centre of Glass Tray



Papad placed at centre of Glass Tray

1. ROASTED PAPAD

Procedure :

Papad:

1. Place the raw papad at the centre of Glass Tray, as shown in the picture above.
2. Select Micro-100% Power Level and Cook time. Press START/Add 30 secs
3. After Papad cooking give standing time of 30-45 seconds.

To Cook Multiple Papads :

*Place Multiple papads over one another, as shown in the picture above.

Crispy Papad :

1. Press START/Add 30 secs once without papad.
2. Sprinkle little water or oil over the papad.
3. After beep, place the papad at the centre and press START/Add 30 secs.

***Note : The cooking time may vary –**

- a. As per the composition of the papad material.
- b. As per the Quantity of papad used.

1



ग्लास ट्रे के बीचों-बीच पापड़ रख दें।



ग्लास ट्रे के बीचों-बीच पापड़ रख दें।

1. भुने हुए पापड़

निर्माण करने की विधि:

पापड़:

1. ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार ग्लास ट्रे के बीच में कच्चा पापड़ रख दें।
2. 100 प्रतिशत पावर लिमिट और कुकिंग का टाइम सेट करें।
START/Add 30 secs दबाएँ।
3. पापड़ को पकने के बाद 30-45 सेकेंड तक ओवन में ही रखा रहने दें।

एक से ज्यादा पापड़ों का निर्माण करने के लिए:

* ऊपर चित्र में दिखाए अनुसार इनको एक के ऊपर एक इस तरह से जमायें।

कुरकुरे पापड़:

1. बिना पापड़ के START/Add 30 secs एक बार दबाएँ।
2. पापड़ पर थोड़े पानी या तेल के छीटें मारें।
3. बीप के बाद पापड़ अन्दर बीच में रख कर START/Add 30 secs दबाएँ।

***ध्यान रहे:** पापड़ के भूनने का समय बदल भी सकता है:

- अ. पापड़ के निर्माण में लगने वाले तत्वों के संयोजन पर यह निर्भर करेगा।
- ब. पापड़ की मात्रा पर भी लगने वाला समय निर्भर करता है।

2



2. POP CORN : Place the pop corn bag to the glass tray properly as instructed on packing. Use START/Add 30 secs to set 3-4 minutes or set time as instructed on the packet. Remove the bag after popping sound has stopped. Take care that bag corners do not touch sides while rotating.

Note : Attend popping process carefully. Do not overheat as it may cause fire.

2



2. पॉपकॉर्नस: ग्लास ट्रे पर पॉपकॉर्नस का बैग सही तरह से रख दें. पैकेट के निर्देशन अनुसार | START/Add 30 secs दबा कर तीन से चार मिनट कर टाइम सेट कर दें या फिर पैकेट के निर्देशन अनुसार | बीप की आवाज़ के बंद हो जाने पर आप पॉपकॉर्नस का बैग बाहर निकाल लें | ध्यान रखें कि बैग के कोने दीवारों से न टकराएँ

नोट: पॉप होने की प्रक्रिया पर नज़र रखें | ओवरहीट न होने दें क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आग लग सकती है |

Plug wiring information / प्लग वायरिंग इन्फोरमेशन

⚠ Warning

This appliance must be earthed

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following codes
 BLACK ~ Neutral
 RED ~ Live
 GREEN & YELLOW ~ Earth

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is colored BLACK must be connected to the terminal which is marked with the letter N or Colored BLACK.

The wire which is colored RED must be connected to the terminal which is marked with the letter L or colored RED.

The wire which is colored GREEN & YELLOW or GREEN must be connected to the terminal which is marked with the letter E or $\frac{\perp}{\perp}$.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service technician or a similarly qualified person in order to avoid a hazard;

⚠ चेतावनी

इस उपकरण को अर्थिंग से अवश्य जोड़ें

मुख्य पावर कोर्ड में तारों के रंग इस प्रकार होते हैं :

काला – न्यूट्रल
 लाल – लाइव
 हरा और पीला – अर्थिंग

इस उपकरण के मुख्य पावर कोर्ड के तारों के रंग आपके प्लग में दिए गए तारों के रंग से अलग भी हो सकते हैं और तब इस तरह से चलना होगा:

काले रंग के तार को टर्मिनल से जिस पर N लिखा है या जिसका रंग काला है, से जोड़ा जाना चाहिए।

लाल रंग के तार को टर्मिनल से जिस पर L लिखा है या जिसका रंग लाल है, से जोड़ा जाना चाहिए।

हरा और पीला या हरे के तार को टर्मिनल से जिस पर E या $\frac{\perp}{\perp}$ चिन्ह लिखा है से जोड़ना चाहिए।

अगर पावर कोर्ड कटी-फटी हो तो इसे निर्माता या सर्विस तकनीशियन के माध्यम से दूसरी मंगा ली जाये ताकि परेशानी और खतरे से बचा जा सके।



MFL63289523(00)